

अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना

SURAKSHA
ENCLAVE
HYDERABAD



RERA No: P02400002032





THE ABSAY

ADVANTAGES
ABSAY के लाभ



01

“ABSAY” अच्छा भी सस्ता भी

We work on a famous marketing concept of group buying. It helps us save on huge marketing expenditure which is passed on to the buyer.

हम जाने माने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, “ग्रुप खरीदारी” पर काम करते हैं। इससे हमें मार्केटिंग में होने वाले उन बड़े खर्चों से छुटकारा मिलता है जो आमतौर पर खरीदारों को ही देना पड़ता है।

02

“ABSAY” में मिलेगा समय पर प्रोजेक्ट

Advance and cumulative sales generates quick funds and translates into faster execution and timely possession. A huge advantage when projects of other builders are getting delayed.

अग्रिम और संचयी बिक्री से त्वरित निधि एकत्रित होती है जिससे काम तेजी से आगे बढ़ता है और समय पर पोजेशन मिलता है। धीमी बिक्री के कारण जहाँ अन्य बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स धीमे चलते हैं वहीं ग्रुप खरीदारी के कारण सुरक्षा एन्कलेव का समय पर पोजेशन इसके हर ग्राहक के लिए एक बड़ा फायदा है।

03

“ABSAY” पुर्न भुगतान के सरल नियम

Group booking, project approvals and future potential translate into hassle-free loans from all the banks, who offer better interests rates and customize the terms of repayment to the buyer's advantage.

ग्रुप बुकिंग, प्रोजेक्ट अप्रूवल और उज्ज्वल भविष्य के आधार पर सभी बैंको से आसानी से ऋण प्राप्त होगा, जिससे खरीदार अपनी सुविधानुसार सस्ती ब्याज दरों और अपने अनुकूल पुनःभुगतान नियमों पर ऋण ले सकेगा।

04

“ABSAY” आपका अपना RWA

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन

With ABSAY you get an opportunity to have RWA whose members will understand your needs as most of them shall be from CPMF background. You will not get the same facility anywhere else other than ABSAY.

ABSAY में आपको अवसर मिलता है एक ऐसा निवासी कल्याण संघ यानी RWA बनाने का जिसके सदस्य आपकी आवश्यकताएं समझते हैं क्योंकि आप सभी एक ही परिवेश से आते हैं। ऐसी सुविधा आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, जो ABSAY में मिलेगी। ABSAY है तो सुकून है।

05

“ABSAY” संपत्ति का मूल्य संवर्धन

Since the company offers only in the growth hubs, after studying the future growth potential and Government's thrust areas, the rates are sure to witness a sharp appreciation in near future.

चूंकि, कंपनी द्वारा भावी विकास संभावनाओं और सरकार द्वारा ध्यान दिये जा रहे क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बाद सिर्फ विकास केंद्रित इलाकों में ही टाउनशिप लायी जा रही है इसीलिए निकट भविष्य में तेजी से मूल्य संवर्धन होना सुनिश्चित है।

06

“ABSAY” है तो विश्वास है

Established name of IPAN, reputed builders and National Coordination Committee for CPMFs, Ensure surety and offer complete trust to the buyers.

IPAN का प्रतिष्ठित नाम, जाने माने बिल्डर और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की नेशनल को ऑर्डिनेशन कमेटी खरीददारों का निश्चिंतता और विश्वास प्रदान करते हैं।

अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना है आपके जीवन में एक सुनहरा अवसर-जानिए कैसे

1 अब से सिर्फ “ABSAY”

ABSAY यानी अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना आपके घर के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सबसे बड़ी विशेषता है सामूहिक खरीददारी। एक ऐसी सोच जो घर खरीदने की लागत को कम करती है। आम तौर पर सभी प्रोजेक्ट में मार्केटिंग की लागत घर की कीमत में जोड़ कर ग्राहक से ही वसूल की जाती है। लेकिन सामूहिक खरीददारी के चलते जब हमारे पास ग्राहक पहले से मौजूद है तो मार्केटिंग पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। सामूहिक खरीददारी की प्रणाली में बिल्डर को नियमित रूप से पैसे मिलते रहते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाता है और ग्राहकों को तय समय सीमा में घर मिल जाता है। **ABSAY** में हमारा यह मानना है कि घर खरीदते समय सबसे जरूरी होती है मानसिक शान्ती जो कि सामूहिक खरीददारी से ही संभव है।

अन्य टाउनशिप्स - सेल्स/मार्केटिंग खर्चा (प्रोजेक्ट की लागत का लगभग 15 -20%)

- ✓ टी.वी. विज्ञापन / TV Advt.
- ✓ न्यूज पेपर विज्ञापन / NEWS PAPER Advt.
- ✓ रेडियो विज्ञापन / RADIO Advt.
- ✓ मैगजीन विज्ञापन / MAGAZINE Advt.
- ✓ इंटरनेट विज्ञापन / INTERNET Advt.
- ✓ रोड साइड विज्ञापन / ROAD SIDE Advt.
- ✓ सामाजिक मीडिया साइटों पर विज्ञापन / ADVT. ON SOCIAL MEDIA SITES
- ✓ सेल्स / मार्केटिंग टीम पर खर्च / SALES & MARKETING TEAM COST

ABSAY के अंतर्गत टाउनशिप्स - सेल्स/मार्केटिंग खर्चा (सामूहिक खरीददारी की वजह से न्यूनतम खर्च)

- ✗ टी.वी. विज्ञापन / TV Advt.
- ✗ न्यूज पेपर विज्ञापन / NEWS PAPER Advt.
- ✗ रेडियो विज्ञापन / RADIO Advt.
- ✗ मैगजीन विज्ञापन / MAGAZINE Advt.
- ✗ इंटरनेट विज्ञापन / INTERNET Advt.
- ✗ रोड साइड विज्ञापन / ROAD SIDE Advt.
- ✗ सामाजिक मीडिया साइटों पर विज्ञापन / ADVT. ON SOCIAL MEDIA SITES
- ✓ सेल्स / मार्केटिंग टीम पर खर्च / SALES & MARKETING TEAM COST

उपर बताए गए खर्चों की बचत की वजह से अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना के अंतर्गत हम आपको अन्य टाउनशिप्स से कम कीमतों पर अप्रूव्ड प्लॉट उपलब्ध कराते हैं।

2 “ABSAY” में मिलेगा जाना पहचाना पड़ोसी

घर खरीदते समय अधिकांशतः ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा पड़ोसी कौन एवं कैसा होगा; उसका रहन-सहन हमारे अनुरूप होगा या विचारधारा किस प्रकार की होगी। लेकिन अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना मुख्य रूप से अर्ध सैनिक बल के कार्मिकों के लिये परिकल्पित है, जो पूरी तरह से आपकी विशेष आवश्यकताओं और जीवन शैली के अनुरूप है। सर्वाधिक सुविधाजनक बात यह है कि आप अपने कार्यक्षेत्र के लोगों के साथ रहेंगे, जिनकी जीवन के प्रति विचारधारा और पसंद एक सी होती है और कर्तव्य, अनुशासन और कर्मठता को वे एक समान महत्व देते हैं। यहां उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी अन्य नागरिकों की जीवनशैली के अनुरूप अपनी जिंदगी को बदलना नहीं पड़ेगा। अपनी पसंद के पड़ोसियों के साथ अपने खुद के घर का सपना पूरा करने का यह एक सुनहरा अवसर है।

3 विश्वास का पर्याय है “ABSAY”

किसी भी कारोबार में विश्वास ही वह नींव होती है जो संबंधों में प्रगाढ़ता बनाए रखती है। **ABSAY** में भी हम विश्वास और भरोसे को आधार बनाकर आपसे जुड़ते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के आरंभ होने के साथ ही हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको आपका घर निश्चित समय में मिलेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में वर्तमान में समय पर घर न मिल पाना घर खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या और निराशा का कारण है। लेकिन **ABSAY** के साथ आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। क्योंकि हम समय का महत्व समझते हैं और आपकी आवश्यकताओं को भी। सामूहिक खरीददारी जैसी विशेष परिकल्पना पर आधारित **ABSAY** की नीतियां पूर्णतया स्पष्ट हैं कि सुख-सुविधाओं से लैस घर हमें आपको निश्चित समयावधि में आपके सुपुर्द करना है। निर्धारित समय पर घर तैयार करने में सामूहिक खरीददारी की विधि बहुत ही कारगर साबित होती है, क्योंकि शुरू से ही पर्याप्त ग्राहक संख्या होने से हमें न तो प्रचार-प्रसार पर अतिरिक्त पैसे खर्च करने होते हैं, जिससे मार्केटिंग का खर्चा बचता है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पर्याप्त ग्राहक संख्या प्राप्त होने के बाद ही हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और शुरुआत से ही पर्याप्त धनराशि होने के कारण काम समय पर शुरू होकर निर्धारित समय सीमा में समाप्त भी होता है। हमें विश्वास है कि आपका भरोसा कायम रखने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे।

“ABSAY” आपको आपका घर आपके बजट में निश्चित समय में देने के लिए प्रतिबद्ध है।



ABOUT

IPAN

IPAN Real Estate Pvt. Ltd. is one of India's growing real estate and consultant, based in New Delhi. **IPAN** had been working with a clear intention of improving lives of communities it works for. It undertakes customised developments for special communities like armed forces and others. It works on a ground-breaking marketing concept of group buying that achieves significant price advantage without compromising on quality.

IPAN के बारे में

भारत में तेजी से उभरते रियल एस्टेट डेवलपर्स और कन्सल्टेंट्स में से एक है नई दिल्ली स्थित **IPAN** (आइ० पी० ए० एन०) रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। **IPAN** का स्पष्ट उद्देश्य है की जिन समुदायों के लिए वह काम करे उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाए। यह विशेष समुदाय जैसे सशस्त्र बल आदि के लिए उनकी पसंद के अनुरूप सोसाइटी विकसित करने का कार्य करता है। गुणवत्ता से समझौता किए बगैर यह सही कीमत पर सामूहिक रूप से घर खरीदने के नये मार्केटिंग कन्सेप्ट पर काम करता है।



ABOUT

ABSAY

ABSAY (Akhil Bhartiya Suraksha Awaas Yojna) is a special initiative by renowned real estate experts to give our armed forces a world where they feel completely at home. Being developed under the guidance of National Coordination Committee for Central Paramilitary Forces (CPMF), it aims to give CPMF personnel homes and locality which are fully customised to their needs. It will make for a community that's very much their own. **ABSAY** offers the best of locations at the best of prices and safeguards the interests of our armed forces, giving them a pleasant buying experience.

ABSAY के बारे में

सशस्त्र अर्ध सैनिक बल के कार्मिकों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी द्वारा शुरू की गयी विशेष पहल है अखिल भारतीय सुरक्षा आवास योजना **ABSAY**। केंद्रीय अर्ध सैनिक बल हेतु नैशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी (सी० पी० एम० एफ०) के कुशल मार्गदर्शन में विकसित हो रही इस योजना का उद्देश्य है सी० पी० एम० एफ० कार्मिकों को उनकी जरूरतों को पूरा करने वाली जगह पर घर उपलब्ध कराना। यह इन्हे एक ऐसा समुदाय प्रदान करेगी जो उनके अनुकूल होगा। **ABSAY** हमारे सशस्त्र बल कार्मिकों की पसंद के अनुरूप बेहतरीन लोकेशन में सबसे अच्छी कीमतों पर प्लॉट उपलब्ध करा रहा है, ताकि उन्हे घर बनाने का एक अच्छा अनुभव मिल सके।



ABOUT

BUILDER

Incorporated in 2016 as a partnership firm under Indian Partnership Act, 1932 and having successfully completing the projects, ARCEDO has established itself as one of the Hyderabad largest property developers and construction companies specializing in building quality apartments within a short span.

Founded by a team of qualified and passionate professionals from Management, Engineering and Marketing, providing the company's strategic and exponential growth.

Few of the completed projects are:- Aishwarya Homes, Arcedo Nirvana, Ramakrishna Enclave, Venkateswara Residency, Sujana Arcade & many more.

सन् 2016 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत एक साझेदारी फर्म के रूप में शुरुवात करने के बाद थोड़े ही समय में बहुत सी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ, Arcedo ने खुद को हैदराबाद के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स और निर्माण कंपनियों में से एक के रूप में स्थापित किया है जो कम समय में बेहतरीन अपार्टमेंट बनाने में विशेषज्ञता रखते हैं।

मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मार्केटिंग की अनुभवी एवं सफल टीम की सहायता से कंपनी कम समय में बेहद तेजी से सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है।







पूर्ण की गई परियोजनाओं में से कुछ हैं:- ऐश्वर्या होम्स, Arcedo निर्वाण, रामकृष्ण एन्क्लेव, वेंकटेश्वर रेजिडेंसी, सुजाना आर्केड इत्यादि।

सुरक्षा एन्क्लेव हैदराबाद है बेहद खास

1 यह है सभी मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण



2 इसके आसपास मौजूद हैं सभी बुनियादी सुविधाएँ

-  Shadnagar English Medium high School, Academic heights Public School, Delhi World School, Shadnagar, Oxford High School, Medha International School
-  Vivekananda College of Education, Prathibha Junior collage for girls, Vivekananda Degree College, Govt Junior College, Shadnagar, Dr BR Ambedkar Voc Junior College
-  Dr K Chandra Shakar Hospital, SRI ADITYA BALAJI CHILDREN HOSPITAL, Vijayajyothi multispeciality hospital, Govt. Hospital, Shadnagar, Ravi Multi Speciality Hospital
-  State bank of India, Dooskal, State Bank of India, Shadnagar, Canara Bank, Shadnagar, ICICI Bank Shadnagar, Mahbubnagar - Branch & ATM, Andhra Bank Branch Shadnagar
-  Bus Stand
-  Shadnagar Railway Station
-  Rajiv Gandhi International Airport

Hyderabad Project - Nearby Features & Facilities



Why is the Location of Hyderabad Project so special?

After studying the Hyderabad-Bangalore highway, our research team found that the development in the peri-urban zone on this highway is happening at a very fast pace. Just as big international companies have built their industries and offices in Gurgaon and Noida, similarly big international companies like Procter & Gamble, Cadbury, Oracle Polymer, Johnson & Johnson and Amazon are already functional here and soon a lot more will be operative in this region.

So after studying this entire peri-urban zone from Airport to Shadnagar on the Hyderabad-Bangalore highway for the Suraksha Enclave, our research team chose this location right in front of Shadnagar as this location has already been developed and all kind of modern and basic facilities such as Schools, Colleges, Markets, Hospitals, Banks, etc. are available here. These features make this location for habitation and the Residents of the Suraksha Enclave today and always.

हैदराबाद प्रॉजेक्ट की लोकेशन क्यूँ है इतनी खास?

हमारी रिसर्च टीम द्वारा हैदराबाद-बंगलुरु हाइवे का अध्ययन करने पर पाया की इस हाइवे पर स्थित पेरी-अर्बन जोन में विकास काफी तेज गति से हो रहा है. जैसे गुड़गाँव और नोयडा में बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी इंडस्ट्रीस तथा ऑफिस बनाए हैं उसी प्रकार यहाँ पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कैडबरी, ऑरेकल पॉलिमर, जॉनसन एंड जॉनसन तथा अमेजन जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनिया कार्यरत हो चुकी हैं और साथ ही इनके जैसी और भी ढेरों कंपनियाँ यहाँ ऑफिस बना रही हैं.

इसलिए सुरक्षा एन्क्लेव के लिए हैदराबाद-बंगलुरु हाइवे पर एयर-पोर्ट से लेकर शादनगर तक के इस पूरे पेरी-अर्बन जोन का अध्ययन करने के बाद हमारी रिसर्च टीम ने शादनगर के ठीक सामने स्थित इसी क्षेत्र को चुना क्यूंकी बीच के पूरे रास्ते में बुनियादी सुविधाओं का विकास होने में अभी समय लगेगा जबकि शादनगर में काफी विकास हो चुका है और यहाँ आज ही सभी प्रकार की आधुनिक एवं बुनियादी सुविधाएँ जैसे की स्कूल, कॉलेज, बाजार, हॉस्पिटल, बैंक इत्यादि उपलब्ध हैं जिसका सीधा लाभ सुरक्षा एन्क्लेव के निवासियों को हमेशा मिलता रहेगा.

Hyderabad Project - 2D Layout



PLOT SIZE RANGE


- 161 - 167 sq.yd
- 180 - 187 sq.yd
- 199 - 203 sq.yd
- Other Size Plots



SHADNAGAR

← BENGALURU

HYDERABAD →



3D VIEW OF SURAKSHA ENCLAVE HYDERABAD



RERA No: P02400002032

Note: This image is an Artistic impression of the project.

Latest Development Pictures Of Various Projects Under ABSAY

Development Pictures of ABSAY INDORE



Development Pictures of SURAKSHA ENCLAVE CHENNAI



Development Pictures of SURAKSHA ENCLAVE NAGPUR



Development Pictures of SURAKSHA ENCLAVE BHOPAL



Latest Development Pictures Of Various Projects Under ABSAY

Development Pictures of ABSAY GREATER NOIDA



Development Pictures of SURAKSHA AWAAS SONIPAT



Development Pictures of SURAKSHA ENCLAVE ZIRAKPUR




Development Pictures of SURAKSHA AWAAS JAIPUR





Latest Development Pictures Of Various Projects Under ABSAY



Development Pictures of SURAKSHA ENCLAVE AGRA



Development Pictures of SURAKSHA ENCLAVE JAIPUR



Development Pictures of SURAKSHA ENCLAVE HARIDWAR



Development Pictures of SURAKSHA ENCLAVE SONIPAT



...and Many Other Projects Under Development at Various Locations

STEPS OF BOOKING

बुकिंग प्रक्रिया

चरण 1

प्लॉट आवंटन में भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ में स्थान बुक करना होगा।

चरण 2

ड्रॉ स्थान बुकिंग की तिथि निश्चित होते ही आपको उसके विषय में फोन, SMS और E-Mail द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।

चरण 3

यह पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसमें हमारी वेबसाइट पर जाकर आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ड्रॉ में अपना स्थान बुक करने का मौका मिलेगा।

चरण 4

सबसे पहले आपको अपनी पसंद का प्लॉट साइज का चुनाव करना है।
उदाहरण 95 - 110 115 - 135 135 - 160

चरण 5

अपना पेमेंट प्लान चुनिए।

फुल पेमेंट प्लान EMI पेमेंट प्लान बैंक लोन पेमेंट प्लान

चरण 6

अपने ऑनलाइन खाते से ड्रॉ स्थान बुक करने के 30 मिनट के अंदर आपको रु.5000/- की राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा आपका ड्रॉ स्थान अपने आप रद्द हो जाएगा।

बुकिंग राशि का ऑनलाइन भुगतान आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही कर सकेंगे।

चरण 7

एक निश्चित संख्या के ड्रॉ स्थान बुक होने के बाद कंप्यूटर द्वारा स्वयंमेव (ऑटोमेटेड) ड्रॉ की तिथि निर्धारित की जाएगी। इसमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा।

चरण 8

ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत होगी। यानी ड्रॉ में आने वाले सभी ग्राहकों को प्लॉट प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा।

चरण 9

ड्रॉ वाले दिन हमारी वेबसाइट पर लाइव ड्रॉ होगा, आप अपने ऑनलाइन अकाउंट से लाइव ड्रॉ को देख सकेंगे।

चरण 10

प्लॉट आवंटित होने के 10 दिनों के अंदर 10 % बुकिंग राशि का भुगतान करना होगा अन्यथा आपका आवंटन रद्द माना जाएगा। आपके फोन और E-Mail पर भेजी गयी जानकारी के अनुसार आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा आवंटन राशि का भुगतान करना होगा।

चरण 11

यदि ड्रॉ में आपको प्लॉट आवंटित नहीं होता है तो बुकिंग के लिए दी गई रु 5000/- की राशि 7 दिनों के अंदर आपके उसी खाते में वापस चली जाएगी जिस डेबिट/क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर आपने भुगतान किया होगा।

STEP 1

To participate in plot allotment process, first of all you need to book a slot in draw system.

STEP 2

You will be updated via phone, SMS and E-Mail when the dates for draw slot booking are finalized.

STEP 3

This is a completely online process where you will get a chance to book a slot in draw system on first come first serve basis

STEP 4

Select your preferred plot size

E.g. 95 - 110 115 - 135 135 - 160

STEP 5

Select your payment plan

Full payment plan EMI payment plan Bank loan payment plan

STEP 6

After booking your slot in draw system you need to pay Rs.5000/- within 30 minutes else your slot will be deemed cancelled. Payment for booking amount shall be paid online from debit or credit card only.

STEP 7

After a fixed number of slot bookings computer will automatically declare the date and time of draw. There won't be any human interference in it.

STEP 8

The complete process of draw will be computerized thus ensuring equal and fair chances of draw for all customers.

STEP 9

On the day of draw you can watch the live draw in your online account on our website.

STEP 10

On plot allotment, 10% booking amount should be deposited within 10 days from the date of allotment else booking will be deemed cancelled. You need to pay the booking amount via cheque or demand draft as per the details sent on your phone and E-Mail.

STEP 11

If you don't get a plot in the draw then Rs. 5000/- which has been paid by you during slot booking will be refunded within 7 days to the account linked with the debit or credit card through which you made the payment.

FOR MOST OF US BUILDING
OUR DREAM HOME REMAINS A DREAM.

WHY?

Most of us are unable to identify the right place and the right time to build our house. Ideally, we should invest in a place when it is growing and not when it has grown. But by the time we recognise the potential of a place, it is too late and too expensive. IPAN, through its expert, spots places with great future potential when it is still affordable. Our team conducts an in-depth study of master plans as well as Govt. policies to get a thorough understanding of how cities are designed in present day as well as how they should be designed in the future. All our efforts are shaped towards building a progressive location for your future.

हम में से ज्यादातर लोगों का अपने घर का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है, क्यों ?

हम में से ज्यादातर लोग अपना घर बनाने के सही समय और सही जगह की पहचान नहीं कर पाते। आदर्श स्थिति में हमें पहले से विकसित स्थान की जगह विकासशील जगह पर निवेश करना चाहिए। लेकिन जब तक हम किसी स्थान की संभाव्य स्थितियों से परिचित होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कीमतें भी काफी ऊपर जा चुकी होती हैं। IPAN, अपने विशेषज्ञों के माध्यम से ऐसे स्थानों का पता लगाता है जो सुनहरे भविष्य को समेटे हुए हो साथ ही ऐसे दाम पर जिसे वहन करना सरल हो। हमारी टीम मास्टर प्लान के साथ ही सरकार की नीतियों का गहराई से अध्ययन करती है ताकि यह समझा जा सके कि वर्तमान परिदृश्य में शहरों को किस प्रकार परिकल्पित किया गया है साथ ही भविष्य में उन्हें कैसे रूपायित किया जाना चाहिए। हमारे सभी प्रयास आपके भविष्य के लिए एक विकासशील स्थान का निर्माण करने के लिए हैं।



Office Address

IPAN Real Estate Pvt. Ltd.

10/58, Second Floor, Kirti Nagar Industrial Area, New Delhi-110015

Ph.: 011 4042-4000, E-mail: contact.absay@gmail.com,

Website: www.absay.org

SITE ADDRESS

SURAKSHA ENCLAVE HYDERABAD

LAUREL SPRINGS

Bengaluru Highway, Chatanpally, Shadnagar,
Hyderabad. R. R. Dist.

Landmark : Bypass Road Shadnagar
(Rasoi, Annapurna & Ashiana Restaurants) X Road

Project Manager no. - 9599599325